[illegible] कि [illegible] फ्लि [illegible] नरकुटि तेकरनु [illegible]
पिशुनिम्हलाम्हैरिवं [illegible] लिं रौचितिनिदुवाकोरथचालि [illegible]
खिशनालवयानिकितूशाद्दैग॥ गुजोकारतमारवनि नोरनर [illegible]
उमालिपिनुलवतुसाद्दै॥ किहु कि कुलोभागाकावोदलेकुविपि
वास्तेभागाकाका कावियामलि [illegible] रनैनकरिद्दवीकारमवाधम [illegible]
वर्तुजप्रमानवदिवाधेरकरस्वानु [illegible] निकतुषाद्दै॥ दिगाभगुडोलाया [illegible]
कारतातुकेनवकानिलोजसवोरतिपिव्हि यानुवेतत्तुषाद्दै॥ [illegible]
लोहितुसाकोनरोवानिलिनार [illegible] नववखाजरतनकेलवयोन [illegible]
लवतुषाद्दै॥ ववारिकोकुलवोदरलिपिव्हि यानदितुलवतुषाद्दै [illegible]
दाका [illegible] लिकाकिमह [illegible] ठिमधै सनाविवगिद्रा [illegible]
[illegible]

आशा सफू कुठि
ASHA ARCHIVES
2430

बी

काहुरहे भाग १ डारिमका बोकरा र कुरेगा ४ तुंके भाग
४ रलिगोल सितविहूनु तव कपाल लेवकरसा। अबे
वाधाकै ॥ कपाल कि व्यथा कै ॥ रिगतथा कै ॥ ॥ सुन
कोतूली तु कानुरि हु कोजते: गा रहु घसित लेपकर
नुलवस ररहुरव दो भा करी गात थी कै ॥ [illegible] ॥ हरल
कि। लिपी। गोहु र २ ऐ ति चूर्ण करि ता ता पानी सित खानु
लव ग्निर को रगा दो थाकै ॥ ॥ इति शिर रोग प्रतिकार ॥

अजैपार भाग ५ बेर २ नेसा मे लि सित मर्दन गर्नु विनाशेरोग
थाकै ॥ काफल को बोको बेर १ अजैपार २ ऐ ति पिङ्गि मेसा नो
नि सित मर्दन गर्नु: विनास रोग थाकै ॥ हिरंबी निवें ति १
अजैपार १ विष १ पा खान मे दा सैंधव १ ऐ ति पिङ्गि मेसा
नो नि सित मर्दन गर्नु तव विनास रोग थाकै ॥ ॥ इति वि
नास रोग प्रतिकार ॥ ॥ अथ कुष्ठ कुलार जार फल
नकुलार अम्राव किकोटु लि: विजया: ऐ ति सम करि पिङ्गि नु वा
ॐ सित खानदिनु: अम्र वाम ह सित खानादिनु तव रक्त नि

सार थाकैः॥ हिर थाकैः॥ दाडिमका बोकरा। ता। राकरा लु।
जवानु। जाइफल। अफु। पाखान भेद। ऐति सम करि पिसु
नुः नव घान दिनुः रक्तातिसार थाकैः॥ मोथा। कुड्डा। सार दि
राला। आवकिका फुलिः सिमरको बोटो। जावु फल। बेलको गु
डः धाइराका फुल। जाइफल। विजया। अफु। पाखान भेद। के
लाको फुलः कागलसिजो। लवांग। जवानु। ऐति पिहि वस्त्र गारि त
कर्नुः नव द पिलित घान दिनुः नव सर्व रक्तातिसार थाकैः॥ व
ट्सोलि ते थाकैः॥ पिपलाकि छाला। मोचराकि छाला। धाइरा
का फुल। मुसलि। आवकिका फुलोः तिमुडाको जरो। जि रो।

बेर। अफु। रे … ति औषध सम कलि पिहुनुः नव घान दिनुः
सर्वप्रकारको रक्तातिसार थाकैः॥ अफु केलाका फुल। मर्वे
जवानुः ऐति पिहु घान दिनुः रक्त … पर दो थाकैः॥ जामुनुको
छाला। सिमलको बोटो। अफु। जवानु। पाखान भेद। फट
कि। ऐति पिहु वस्त्र गारि तकर्नुः महसित घान दिनुः असा
धगानु थाकैः॥ रक्तातिसार थाकैः॥ जाइफल। अफु। कपु
र। कस्तुरा। धतुर विजया। ऐति सम करि पिलाइ पिहुनु व
स्त्र गारि तकर्नुः नव महासित घलनु अवला प्रमान घान दि
नु नित्य खांनहोइः सर्वातिसार थाकैः॥ ॥वा घान भेद भा

गा।जा१ फल२।छिद्र न्याकयार१।धतुरावीज१।आकुमाग१
सिडमुलि।१ इति समकरि पिइनु: महसित घानदिनु: अ
थवा गुड सित घान दिनु: तव लोफि हडो न्याथाकः॥ कुष्ठो
मुष्ठो इति चूर्ण करनु: महसित नदिनु कुण्ड थाकः॥ निवा
र थाकः॥८॥ जो घार: मुष्ठो समकरि घानु: निवार: कुण्ड ४
थाकः॥८॥ इति अतिसार प्रतिकारः॥ ॥ ॥अथ पनि
रंध प्रतिकारः॥ ॥सवांग पिढि वा सिपानि सित बाँनव मुतनाको
हुंगा फुटैः॥१॥ सिधो सोवलो पिढि वा सिपानि सित निलो पि
घानुः तव निरं धथाकः॥२॥ मुसाकि विष्ठि१ महसितना

बान्ति

हो दाधुधालाद नुः इनि तेपगनुँ: घान दिनु: तव ततक्षन
रुन आवछ॥ जसो विसलो दे मुसोन सैः तसो रोवधा
दे घिरह नघसै॥४॥ इति निरंध प्रतिकारः॥ ॥अथ वल
हलो प्रतिकारः॥ वलको जरोः चौरा निसित घानु तव अब्रिवि
को वलहलो थाकः॥ कुशको जरो चौला निसित घानु तव वल
हलो थाकै॥ जा१ फल१ रक्तचन्दन१ केतु फुला१ कपुर१ ऐ तिस
मिलाइ घानडिनु: तव निरंध थाकै॥ सिदुको जरो पिढि धुरा ना
चुका सित घान डिनु: तव गर थाकै॥ चित्ताको जरो गोलना सित घान
दिनु तव गर थाकै॥ डोगको जरो गोलना सित घानडिनु गर:

थाकै:॥ लिककोदूधिलोकोजरोगोनासितपिह्निषा
नदिनु:तबगरथाकै:॥ लवांगाकाकडिकोजरो:डारिमको
जरो।धाईंपाकोजरो।रत्तिपिह्निगोनासितषानदिनुतवग
रथाकै:॥५॥ ॥इतिगरप्रतिकार:॥ ॥अथकुरुंडरोगप्रति
कार:॥ ॥त्रिकटु।लवांग।हर्रो।वर्डो।गुग्गुल।रतिसमक
रिपिसना।वस्तुगरित्तगर्नु:तवअरिंडकातेललाइ तवलनु:
तववस्तुगारित्तगर्नु:तवजातककोबालाइलादेथाक:॥१॥वि
विराकोजरो।अरिंडकोजरो।गुन्द्रोडेवारवनुनपुर्नेवा।वि:
लो।जवानु।हल्ले।दो।मलिवा।पिपला।गुगुल।रतिसमक

रिपिसना।तववस्तुगारित्तगर्नु: नसितपिह्निलाइतुत
वगरनुसादेथाक:॥वालुकालुपजोगालुथाक:॥अरिंडको
तेलसितलाउनुजातककोपोतालुसाडेथाक:॥ ॥इतिकु
रुंडरोगप्रतिकार:॥ ॥अथविस्फोटप्रतिकार:॥ ॥अमिलि
कबीज।काबोहल्लेडो।वासिपानिसितपिसिषानदिनु:तवजा
तकविस्फोटनपिडौ॥१॥गोवाक्काकोजरो।चोलानिसित:
पिह्निषानुतवजातककोविस्फोटनपिडौ॥२॥वासिपानिसि
तलपालिमहसितपिनादिनु विस्फोटनपिडौ:॥३॥बोडाडुमि
निषानदिनुतवविस्फोटपाकै:॥इहिमालाकोजरो।पिनदि

नुःतवविस्फोटपाकैः॥गँगटमारिफ्कोंडोयकावनुतवघा
नदिनुतवविस्फोटपाकैः॥मैसिकोड हिमेकेलामुछिघानदि
नुतवविस्फोटपाकै॥मधुघानुमधुरेमईनगनुःतवविस्फो
टयोकोहोर॥वोसिजलाघानदिनुजत्तिघारततिहोर॥सिम
लकाबीजजतिघारततिहोर॥सिदुडकाडाग्मारुजानिगुरिया
धूपकरिगलावंधनुजतिगुरियाततिहोर॥ ॥इतिविस्फो
टप्रतिकारः॥ ॥अथहरसरोगप्रतिकारकहूं॥॥पिपलाकेछा
ला।मुसरिसुकारबुतागर्नुःतववस्त्रगरितगर्नुःदधि।सितघा
नदिनुहरसरोगपाकैः॥गुड।पिपलाघानदिनुतवहरस

रोगपाकैः॥हर्डोच्छतमेमुछिघानदिनुतवहरसा
थाकः॥तिल।मला।पो।हर्डो।गुड।विता।मह।सि
तघानुतवहरसाथाकः॥हलेडाकोवुर्ताःसिदुडु
कादुधकिपुटसातऽदिनुःतवसुकारबुतागर्नुः
सोबुर्ताहरसाकाअंदरलायनुःतवहरसाथा
कः॥ ॥इतिहरसाप्रतिकारः॥•॥

वायाँ मिंसि मि गवाँयाँम सिवाय
८म सवँ मसीँ ८ म सीँव वाय
१ पूँरु दवा यिं वाय पाकपवडथी ८ ...
१ ९ गि. सावायी वडी वाय १ ज्ञावायदव

बायजग १ | १ सा मा सासि बायझा नव
बायमाम | १ हुगी नबायदु, नी ना बाय
हुवान बा यु १ रु गु दनीमें बा
बावसिकु बा के, बाय १ हु बाबायवुनदोय
बा:बायगुनबा कं, बाय १ बाकुवा, कुना
नो कुन यन, बाय कुपु नव बदबाय
बायवम के, कु सी बाय य
काना कुन गान बाय १ नी म बायपुनवि
बायवज १ ना पिनावी बाय, आ स आ
बायजाकी १ कुन जी स मेदु स्नु ना (सं
य धो लि, बा ङ्गा नायावे बाय य
य बायं वानें १ दि मि विनायि, धु कुन ई व
यशेक (सा) १ कु मा काना, मन सि के बाय
रुमिक न य बाय १ शीनी बाय न यन
१ वीवावनी बस्न बाय
माव बाय १ कि निदवीयी बायं कुनी बयी वना बाय
१ ना बान स बाय
विषुझा यदा झ य कुन झ कल्यदु
बाय दुन व्या १ सी बाय सीजनबाय
वृमिझा ना झा म बानि बाय १ नम विक कु
ना झा सिव ली बाय यहा पुक्ष: ननानवा
ल्यम, ञा सव ना, बाय झाकु ननानकु (बाय
बाद कुन, सवु नौ मि व नी नि बाय
नाद दकी मियवनी
वा सीव मा रे कुय बाय
र न बाय | १ सा मा मि सा जा नै म धू
म य बाय | बाद

१ र्श्व कमाछ्वदद्रु कु न कवान मरिदं बाय
१ काना कवा, गी वंदा बाय लन ग्री बायक
१ म हि मवंदा रु बाय | कु न
१ सत, बायबाया, वानें १ स हु बाय:सात
१ द, बायनया १ दु झाः स्वाय, न जाय
१ निडा नाभिव अ भी मयव बाय
१ सं धु बाय कि
१ कु बाद्रुखा यि बायकुज नवादकय
१ ये वीन नी: कु कु का यि व बाय
१ दनानी बा: धयामूनि ग नि बाय
१ झा गी स्या अ या सा बना कु बाय
१ खाना, बाय, की य
१ धाम स्या वाद अल नबाय
१ कम, बाय लिन, यु ल्या
१ की वा, बाय, कुमी य न म
१ म यि, म र्स बाय
१ दाम या: दर्स
१ झा बानाय: बायिकुंवदुय बाय
१ सो बायि बायमधू

॥दन्तरोगको औषध गर्दाको कहे॥ सुद्धहिंगुल तोला १ मरिच तो १॥
सुंठि तो १ ककोला तो १५ कुलमूल १ मोथा १ कर्कतजंग तो १
वो सया कंठ तो १ स्मरागयाउं चूर्णगरायेजलतयाव गुलि विने
बघेउ लि धूगा छ गुडि वास्याक थासतयादनयानपेछयागु
ण वास्याक। किलंनवग्र। मुखरोग सवै नाश॥ छिन्ह्यरसद्वया
यविधि॥ छिंग्रका वरस पोर खितार वोरेयामूत्रसयाकयो
येघाम ४ दिन सुद्ध हुन्छ॥ अथ घहरसा रोगप्रतिकारक कहे॥८

पिपल कि फ्रा ला भुसा हरुका यि चूर्ण गर्नु नव दस्त्रगालिन
गर्नु। दधि सित घान दिनु हरसा रोग जायै॥ ॥गुड पिपला षा
न दिनु नव हरसा जायै॥ ॥हरडा चूर्ण गुड षान दिनु हरसा
जायि॥ ॥तिला भलायो १ हरडा १ गुड चितो १ मह सित षान
दिन तव हरसा रोग जायि॥ ॥विछवायाको मारण औषध
कहे॥ सफसत्ताको फुलका ला भिडाको जरो कुटि पिन दिनु नव
विखवायाको जायि॥ ॥पानल जरिको जरो सेत वरवाको जरो
दुवै कुटि पियावनु नव वकुला कुकुर लेखायाको विष जायि॥ ०॥

काचोराहाकालामिडाकोजरोरया लिपिन दितुतवहरिला
लखाया को विषथाकैः॥ ॥लाडुकाकुपथ्य गुड दिनु॥ चितिका
कुपथ्य नूनड मा लिदिनु॥बासिखा नाकाकुपथ्य हरेडो चिसोया
तिसित दिनु॥आमिलाकाकुपथ्य गडुंपा लिदिनु॥ ॥रोटिकाकु
पथ्यआपदिनु॥आवकाकुपथ्य मह दिनु॥ महकाकुपथ्य जिरो दिनु॥
विडाल काकुपथ्य मह दिनु॥ विदालुकाकुपथ्य त्रिफला दिनु॥ उमा
लिदिनु॥ दलिया शागकाकुपथ्यः तिल गुड दिनु॥ गुडकाकुपथ्य
नातीरहडदिनु॥ सिघर्निकाकुपथ्य लवांग दिनु॥ उमालिदिनु

आय.नसन १ सीवमिर्द आयमसी
१क्ष आय.वि १खासया.आय क्ष ग नि [illegible]
सर्वक. लिवनसन. लामलसि.गुनिया [illegible]
वस गस आय. साल क ड यावे
य १ क्षाना. आय. १४ का गा १ती ध्या. आय. [illegible]
नरिता आय १ नू गम. आय. गायन
क्ष.जैनबे या आयद्व्य दव आय यासा
व्रति १ क्षगीनदु आय मनदइ १ निवथीवा
म १ मित्रा वार्य क्षरि ६ मानुस आय
१ २ वलं. विवीद का म आय क्षनवे क्ष
आय १ क्षयू बौ गुड्व यि. आय. जिन वीद क्ष
आय १ सि वीयनाम क्ष क्ष आय आय
१ क्षनगी ध्या क्ष मायि दाना वृम का वेन
आय.क्षन यासा वनक्ष दे आय
या १ ८ ये नई दुवायि. कासय क्ष आय
१ क्षथा आय सानगी
थवा आय १ कानि. आय. कपान
नि दि नाववा.आय १ लिगी आय.सी
य.वा क्लिमि सवा.आय
नसवा.आय
धस्मावे.आय

बासघानाकाकुपथः मद्द मलिवदिनु॥ खोंडकाकुपथः म
द्दिदिनुः॥ मद्दिकाकुपथः पाकोदलेदोड्ःिनु॥ तिंगकाकुपथ
तिलदिनु॥ तिलकाकुपथः डाबलादिनु॥ डाबिसंगगयाकाकुपथ
जायिफलदिंनु॥ बांडमबकेकुरदिनु॥ जारफलकाकुपथः
जिरोदिनु॥ जिराकाकुपथराइोदिनु॥ राइोकाकुपथः मस्
रोदिनु॥ मस्राकाकुपथः बासिपानिदिनु॥ घृतकाकुपथः दु
धषाडदिनु॥ तलकाकुपथः माछ्रोपोलिदिनु॥ गांजाकाकु
पथः सेंधवदिनु॥ उमाकाकुपथः मुलोकोबीजदिनु॥

मा रुको कुपथ्य। गुडु दिनु॥ ॥इति कुपथ्यप्रतिकारः॥ ॥नाथु
ग्रवला पिप्लि चत्तव चावनुः तवशिर मईनु तवनाथुरोग थाकौ॥ कुसुमको फुल
को रस तुवाको रस। बाक्लिको दुध १ त्तिस्म कलि नास दिनु तव नाथुरोगः
थाकै॥ कटाइः पिपलाः वैरवीजो। गुठो। मरिच। सिधो। १ त्तिस्म कलि
पिष्ट्या। तेल घालितु मालनाम लको १ कुः सोत्तिलनासा दिनुः नाक
पाकदो थाकै॥ त्रिफला। मरिच। पिपला। १ त्ति चूर्ण करि पिसना महासित
खानु नासा दिनु तव नाकको पिनास रोग थाकै॥ थुलिकामिडार्याग रः॥
हर्डी। धानिउ। तव्या। गह्यात्ति मुर। सुंठो। जवानु मरिच। पिपला। सिधो
सोवलो खिरा हत्ता फुलमजा। १ त्तिस्म काल्लि पसना नवव खाग

लित्त कनु। गाइ घृत मसित्त खानु तव कास उपस्वासो थाकै॥ गुडु कति
कने का वोहरे डो गापि घृत १ त्ति पिप्लि ग्रवला पुमारा खानु तव
कासाय स्वासो थाकै॥ स्वास कास ग्रजीर्ण कफ वातज्वर त्रिवाहरसा ग्रौ
धि॥ सौहित्याय के वकसाव कनाकर्के कावैसा तोला ३ हाट १८ जुवानो
तोला १ सुहिता लानौ २ १ त्त नास वु मिलाइ केहरिया मेरख के मुख बंध
करें ग्रावदे नादे के भस्म करे फेर सोधा न्हन विद्या न्हन मोत्यान्ह नतोः
लातोला रस के खल्ल कनी मा वानो ला १ प्रमान ग्रनुपान माता यातिसे॥
ग्रवकर्णरोगप्रतिकार॥ ॥निम्बको चूर्ण महसित्त खानुः कमलरोग पाडुरो
ग थाकै॥ सिधो। बाक्राको मूत्र १ त्ति पिप्लिकान घालनु तव कर्णसूलथाः

कै॥ विदराकोरस‚ अदुवलाकोरस‚ उघुकोरस। इति मिश्रगरि कान
घालनु नव करीसूर थाकै॥ जामुनाको झाला‚ वेलकि झाला‚ वारा
हाको दांत‚ सिधो‚ इति घालि तेल पवावना‚ सो तेल कान घालनु नव
कानया कदा थाकै॥ कयासको विया‚ सालकि लाल‚ कांन्तिकि मदा‚ जे
खि मद‚ भीमदा‚ इति स्मकरि घिसना तेल घालि पवावनी सो तेल कान
घालनु नव कानया कदा थाकै॥ जायिफल‚ हरेडो‚ मोहो‚ वेलको विया
इति घालि तेल पवावुना सो तेल कान घालनु नव कान श्रूर थाकै॥ ॥
इति कर्णरोगाधिकाल॥ मुलाको पाको पात कोरस कान घालनु तेल प
वावनु सो तेल घालनु नव कानका सर्व व्याधि थाकै॥ इति कर्णरोग॥ ॥

जसको जिव्हा फुटै षटि होतसको औषधि कहूं॥ ॥खैर भाग १ हरे
डोर हर्डी भाउ ३ एति स्रै कंत्र करि चूर्ण गर्नु मधु साथ मुछि गुटिका
गर्नु मुखधारि राखनु नातीया शितकि कुला गर्नु नव फुटि जिभ्राक
मलहोयि॥ ॥कचुर भाग १ लवंग १ सुहाग १ जायिफल १ लिंव १
काकाका विया भाग १ एति स्मका लि पीतनु तेल साथ जिभ्रा ले:
प गर्नु नव पाकडा जिभ्राको षटरो थाकै॥ ॥इति जिभ्रा वानिको
ल॥ ॥अथ समुद्रफलको औषधि यामलिष्यते॥ ॥अईसमुद्रफल निर्गुः
दि जो कोषु जार॥ ॥तथा समुद्रफल निर्गुदि दिजो वायु गल जा
यी॥ ॥

ढेरिका मूत्र संग दिजो उखडा हाजाइ ॥ पुन ढेरिका मूत्र संग अं
जन किजो आखाको फुल्लु जाइ ॥ बाइ संग खानु घातु जाइ ॥ पुन
खाइ साघ दिजो ज्वर याइ ॥ तक्र संग दिजो स्हुल याइ ॥ जवान् सित दि
जो विरा जाइ ॥ पुन जवानो संग दिजो झोला जाइ ॥ स्मुड फल हिंग बा
नदिनु पेतका जुका जाइ ॥ हरडा स्मुड फुल एक ठाव रै लेप करे तो
सेन कुष्ठ जाइ ॥ घृत संग रेपा किजो सेंछे कुजावि ॥ मह संग लावः
नु सर्व्व घातु थाके ॥ निंबुरस संग दिजो ज्वर जाइ ॥ घृत संग ला
वनु बाग य सिना जावि ॥ वजा सित दिजो पित जाइ ॥ हरेडो

सित दिजो जा सपित घसे ॥ निंव संग घावे तो कल्यान होइ ॥ का
लाधतुरा संग लाये घारो कल्यान होइ ॥ मंगल गायि फुल व्या
धि जाइ ॥ केशरिकारस संग दिजो कवलवी फुजाइ ॥
मैसिके गोवर संग लेप की दिजो देह स्यूःख होइ ॥ पुनः कथा
रि रस संग कान घालनु बहिरो नि कोहायि ॥ लज्जरिकाअ
री संग खानु तेज होइ ॥ पिपलीर संग खानु ज्वर न स्य होइ ॥
लवांग संग इन्द्रियग नु गज कसी होइ ॥ निंबुरस संग खा
नु भानु निकालोइ ॥ केशर के मूत्र संग दिजे उर्ध्व स्वास गाइ ॥

पुनः स्त्रोरिकामूत्र सित अंजन किजे र नौड़ि जाइ ॥ मुंद्रि संग ड़िजे र खि वस्यो होइ ॥ निंबुरस संग ड़िजे आखि जोटि होइ ॥ सिवालि संग दि जे अंजन किजे राजा यजीवस्य होइ ॥ एक वारीगाइ का गउत सं ॥ गनिलं बुकरे खि वस्यो होय ॥ बर मूत्र संग अंजन किजे लोक वस्यो हो इ ॥ ऐइ वस्तु षाइके कल्यान होइ ॥ लोक अंजन होइ ॥ ऐ हि वस्तु मधु संग षाये तो जिह्वाकु टहोइ ॥ समुद्र फल त्रिन तुलापानिपकाइ वान दिनु य षाला होइ ॥ जनु या मद्दुध भात चो हि भाग समुद्र फल बुलु या नि षानु अज्ञीर्ता जाइ ॥ बर मूत्र संग ड़ान किजे मूत्र प्रेत ५ इति समुद्र फल कल्प ४ ॥ ५

[illegible] लघु राल्मु [illegible] मुले न बूध मूले न छुनर्न बाधते न पपसा घु क्ता पर्म या अत्र हासा हरेन ॥ पर्मध्या प्रतिकार, गुरि चि, सताव रि, मुसरि, मुद्रि, नाग, मगे चाऊनि रमुद्रि स कू सेवाधि यपी तौन घसे, विंदुन हत्वै मुर्दे ॥ ॥ घोडा बुलि वड़ि, जिरो षाउलव ओला जरो षाकै गर्जो, सुठि उ मालाविनु, तवसौला जरो षाकै ॥ ० ॥ अरिडकोजरो कढाइ को जरो गर्जो सुठो विनो, ऐत्ति उ मालाप नु औला जरो षाकै ॥ अरिडकोजरो हरितकि वजो सुठो ऐति कोर सधुं मालिपिसनः नवाव न दिनु पिन्ता कि त्रिबाई ६ ॥ ० ॥

ASHA ARCHIVES 2430

श्री वलप्रीत

स्मकल्लिपिसनावखगलितगर्नु गुडकापानिस्मित घाँनुतव
श्रोलाजरोघाकै॥' ॥इति श्रीलाजरोप्रतिकार॥ ॥वादल्यान्याका
जरानु मालिपीनुतवपित्तज्वरघाकै॥ पिपलिमुंकद्किनाग
रमोथो.हरितकि.रावर्तुसकिनुद्धि२ तिनु मालिकनपिनुतव
ज्वरघाकै॥ कुन्नाकोजरोवरकापथ्या.कोगसाशासुकोःर
तिनु मालिपिंनादनुतवकफज्वरघाकै॥ मलीचाथ्यपवलाअुंरि
काफकोछाला.शेत तुमालिपीनदनुतवकफज्वरघाकै॥
इति ज्वरप्रतिकार॥

घरकोघर्‌सोःसिधोः इतिपिङ्कु वस्वगलीनकरनु ः
वासिपानिरयालिपिंनदिनु नवडुपर्न्नलिषाछै॥ ः
सिमलकावोकरापिङ्गि पानिलिनपिनदिनु नवडुपः
र्न्नरथाछै॥ आश्विनकार्त्तिकः चैत्रमाघज्येष्ठः इलिमा
सडाउनु कानिपीनदीनु नवडुपर्न्नलिषाछै॥ ०॥ इति
उपर्न्नलिषुतिकालक्ष॥ ॥ घोडुमारिकोलारउङुःसि
ङ्घोःनौलिलिनषानु नवपनकोफ्पिथाछै॥ ॥ कावा

हरेडो॥ सिडुरिको डुधः भगारा ऐलिगोन लिनपछावनु
षेतरेपलावनु नवपनकि फ्पिथाछै॥ ॥ सिधोःसो
वलो विविराकोरसञ्चारकोरसः इतिमनु किनानोकः
रिनासदिनुः नवमुर्छाजार ज्वरगोरि॥ ॥ आफुन्केलाका
फुलजवानूं मलवा इतिपिङ्गि षानदिनु नवरक्तपर
डाथाछै॥ षार विजपा षाडुः ऐत्तपिङ्गि दधिसितवा
नुः नवकालाश्रुतिस्वारथाछै॥ पाषाम्भेद ।आगङ्गि उन्या
[illegible]लिस मकलिपिसनाः नवदधिनवडधिसिते

वानु तव वैश्वारन थाकै॥ लि हार। यि हाइ थाकै॥ ॥इति
श्रतिसालप्रतिकालशः॥ ७॥ अथ वायुगुल्मप्रतिकारः॥ कट्टं॥
कापा लि ३
मरिच गोला ३ अश्व सरा कापाल कोरं स्याघा लि पिसना तव ना सः
तव श्रुंधा या थाकै॥ हरितकि। पिपला। सो श्रुवेल ९ लि समः
कलि पिसना व सुगरितगनीः दधि सित वानु श्रुचवाना नाः
पानि सित वानु तव पेत का वायुगुल्म थाकै॥ ॥हिंग भाग व
जो व पिपला ३ मु हो ४ जवानून प हरितकि भाग द चित्ता भा
ग ५ ९ लि मिसा पिपिसना व सुगरितगनी मह सित वानु

श्रुचवाना नाया नि सित वानु तव पेत को वायुगुल्म थाकै॥
मलि व पिपला। सिद्धो जिरो। सो वागा। हिंग। ९ लि स कालि पि
सना घृत सित विडार ग्रमारा वानुः तव वायुगुल्म थाकै॥ ८
॥ ॥इति वायुगुल्मप्रतिकालशः॥ ८ ॥हिंग। जवानो। सिद्धो। घृ
त ९ लि नाना पानि सित वानु तव श्रुग्नालि थाकै॥ सिद्धो भाग
१ जीरा नो २ चित्ता ३ पिपला ४ सु हो ५ हरितकि ६ ९ लि रो व द
ना ना पानि सित वाना तव मन्दाग्नि थाकै॥ वय वार ला। जो त
रकावना तव विद्धि श्रु घ्वां गला व नीः श्रुघ्वां गकि सुन्य थाकै

वेलकापातकोरसमविपरतघारपिसनातवआररमर्द्दि
नुअरिलकातर्परोगथाकै॥ ॥इतिमन्दाग्निसोफरोगप्रति
कारः॥ ॥वाद्ल्यान्याकादूर्तोघ्नसितखानुतवपित्तज्वरथा
कै॥पुरानुगुड॰घ्रतसंगखानुतवपित्तज्वरथाकै॥ ॥गर्हुंका
जरापिसनावस्त्रगलितगर्नोभैसाकोदुधसंगवखावेनामतातो
पानिरैवकर्तातवकुलंडरोगथाकै॥सिधोपानिघर्ईनकर्ता
तवकुरंडरोगजाय॥ ॥इतिकुरंडरोगप्रतिकारः॥ ॥उद्वेग
वायुः विस्वनामवायुः॥अस्मरनामवायुः॥मिलंवनामवायुः॥स
कारनामवायुः॥ ॥इतिपंचवायुः॥ ॥अग्निसंगगखादे

इ पानिपिवेतोः तोबरवायुउपजै॥ हिडडापज्वेर अग्रा ग्याउघाड्
सेइ॥ रवामविगुउपजैः तातोखानुः पानाउपरः म्हाठिमहिपिवेतो
पित्तवायुउपजै॥सुकोमासुउमाछाइध संगखाततोकुघ्रवायुउप
जै॥ ठाडापानिस्नानकरेतोप्रसूतिवायुउपजै॥तेलनुपरीनागो
सेइ॥रक्तः आधासिसिवायुउपजै॥ अमिरिम्बहिरोर्नेघायारस
वायुउपजे॥ ॥इतिवायुउपजप्रतिकारः॥ ॥हरितकिवहेडाः
अमला।मलिच।पिपला।सुठि।चित्तो।वजो।हिंग।सिधो।सोव
चलो।नगुवो। एतिस्यकरिपिसनाप्रभातखानुतवसर्ववायुहरैः
॥पिपलाजवानु।सुठो।सिधो।हरडो।एतिस्यकपिसनावस्त्रग
रा

ल्तिनगर्नातवप्रभातषानुतवसर्ववायुहरै॥२॥सुन्ठ्यारिस्य
स्विकोगानुथाकै॥ विषमारिच॰सुंठो॰पिपला॰कौडो॰जलाया॰सि
धो॰विजया॰ऐतिस्मकरिपिसनावस्त्रगरितगर्नातवरतिऐ १ः
प्रमानषानुतवसर्ववायुहरै॥ पोलया॰सघवि॰मलिच॰पिपला॰
सुंठो॰ऐतिस्मकरिपिसनावस्त्रगरितगर्नातवषानुसर्ववायुथा
कै॥ अष्टांगप्रकारको जूर थाकै॥ ॥ इति वायुरोगप्रतिकारः॥ ॥०॥
हरितकिः पिपालि सोवर्चल॰ऐतिस्मकालि चूर्णकर्नुः नवव
स्त्रगालितगर्नुः डधिकायानिसित॰अथवा तातायानिसित
षानुः तवपेटको वायुगुल्मथाकैः॥ जवानु॰सुंठो॰हरितकि॰गुड॰

ऐतिपिष्ठ्यानपिनुः तववायुगुल्मथाकै॥ सुवाज॰सेधो॰कोलाजि
रो॰सेतोजिरो॰हिंग॰जवानुः ऐतिस्मकरिपिसनुवस्त्रगरितगर्नु
अवलाप्रमाताप्तसित षानुः तवपेटको वायुगुल्मथाकै॥ चित्र
कः मलिच॰पिपलि॰जवानु॰सुंठो॰वजो॰वाइव्यान्या॰नमुथो॰भागरा॰
हरितकि॰सिंधो॰ऐतिस्मकरिचूर्णगर्नुः तातापानिसित षानः
पिनुः तववायुगुल्मथाकैः॥ हिंग भाग १ वजो भाग २ पिपला ३ सुंठो ४
जवानु ५ हरितकि ६ चित्ता ७ ऐतिमिलाइ चूर्णगर्नु तव वस्त्रगरि
नगर्नुः तव मह सित॰अथवा तातापानिसित षानपिनु तव वाः
युगुल्मथाकै॥ हिंग॰चित्तो॰पिपला॰जवानु॰पटोल॰कचुर॰सि

घीउ, मक्षामिस्री, साजिषार, सौवर्लो, डारिमका विजा, जौषार, अ्र-
रिङु कोजरो, ऐति स्म करि पिसना वस्त्र गारित गर्नु: विडाला पाउ
प्रमान षान दिनु: सर्व प्रकारको वायुगुल्म थाकै॥ जाइफल, आम-
लवेद, गजपिपला, मलिव, अंख चूर्ण ३ घ्यनु भाग २ ऐति पिष्ठि वि-
डाला पाउ प्रमान षानु: तव वायुगुल्म थाकै:॥ मलिव, पिपला, जं-
वाषाल, जिरो, सुवांग, हिंग, सेंधो, ऐति स्म कारि पिसनु विडाल
प्रमान षानु तव वायुगुल्म थाकै॥ समुद्रफल, सेंधो, जवाषार,।
सोवर्चर, पिपला, जवानु, सुंठो, विजया, ऐति स्म करि पिसनु:
वस्त्र गारित गर्नु: नानापानि सित षानु तव पित्तको वायुगुल्म था-

कैः॥ ॥इति वायुगुल्म प्रतिकारः॥ ॥घृत सैंधो, ऐति ना-
नापानि सित षानु तव अग्रजित्त थाकैः॥ सुंठो भाग २ हरितकि गु-
डु ३ ऐति पिष्ठि षानु तव अग्रजित्त थाकै॥ आर्द्रक, सेंधो, नातो भा-
त सित षानु तव अग्रजित्त थाकै॥ मन्दाग्नि थाकै॥ सेंधो, हरितकि
विवक, पिपला, ऐति पिष्ठि वस्त्र गारित गर्नु नानापानि सित:
षानु तव मन्दाग्नि अग्रजित्त थाकैः॥ ॥इति मन्दाग्नि अग्रजित्त थाः-
कैः॥ ॥हिंगु, सिंदुल, अमलाको जरो ऐति स्म करि तमाकु षा-
वडिनु तव स्रोक कफ निस्कंछ॥ स्यालको मासु तेल पकाइ रा-
ख्नु तव स्योक थाकैः॥ ॥इति स्लेस्मा रयाव प्रतिकारः॥ ॥

सिमलको जरो लुछो जवान ऽति स्पकरा पिठुनु अश्वला
५ घृमान बान दिनु तव घरा इ थाकै ॥ गाइ घत सित बान बत
इ थाकै ॥ मूत्र ङ्कडो थाकै ॥ आरल्याक्र ल वलु ल्याइराको फु
ल गुराव सका फुल जिरो गुर्जो भंगिरो ऽति स्पकरा पि
सनान वव स्वगार त गर्नु तव अश्वला घृमान महास्तित बा
नुत अश्व स्त्रिको घर हलो थाकै अरार बुधि होइ ॥ ॥ अश्वारिको
कराइ को जरो अश्वगाल ऽति मिरार पिसनान व बानुत अश्व
स्त्रिको घर हलो थाकै ॥ अश्वला मो थ्या पुनर्नवा ऽति स्प
करि पिसना महास्तित बान दिनु तव अश्वस्त्रिको घल हरो

इतिस्युक्तिदुकारग
थाकै ॥ ॥ इति घलहलो प्रतिकार ॥ ॥ हरेदाको फुल
धायराको फुल ज्याव को जरो जामिर को रस ऽति मिं
लाइ पिसना गाइदुदा सित पिन दिनु तव अश्वास्त्रिको फुल प
लैतो चिरकालि हो ॥ ॥ कृष्ण चतुर्दसिका दिनः कालो धतु
राको जरो कराह वाघ नुत व अश्व स्त्रिको जादो र हाबु वरलि
कया ॥ घोरिये तो वृस्पति होतं भगारो कावी सले दोः तिमं
सो बो ऽति स्पकलि स्वकार पिना व स्वगारि तगर्नि तव करः
वा तेल मित घला ना घत मित अंअन करनान व फुलः
थाकै ॥ कार्त्तिक मह्स्ति लमु रन करना अश्वा बास्त्रि मिरि थाके

गार गौंत सित अंजन कर्नु आंखा बिपरा थाकै॥ बाकराजल लसि
त अंजन करनु आंखा या क दो थाकै॥ तत्र तोघ घिनाम अंज
ना॥ ५॥ ॥ घोडाका तु लि वडः अखि को दुद वो टि अंजन गर्नुः तः
व रतौडो थाकै॥ कौडो तु कुपकाव नु तव अग्गाल मे जलाव
नुतव नौ नि सिताप स नु तव तेव अंजन गर्नु तव फुलः
थाकैः॥ ॥ इति नेत्ररोगे अंजन प्रतिकारः॥ ॥ तिलकोते
लर वीको रस। गाई को घत। विविरा को रस। विमिरा को तु कु
गुड संग बरि बाधि घानुः सर्व शूल थाकै॥ कंठा कि शूर र कफ
कि शूर थाकै॥ पेट कि शूर थाकै॥ इति शूल प्रतिकारः॥ ० ॥

म:
पर ला या कि गुदि द्दात का दोर का जा कर्नु तव दंत करथाकैः॥
त मया कां जरो डान का नाट का। सा कर्नुः तव दंत कनु थाकैः॥
स्सिसन कि जरो आदित्यवार का दिन काँन बाधनुः तव ड
न को कडो थाकैः॥ ॥ इति दंत को प्रतिकारः॥ पांघान
मे दाल तुवारि। पानि धोटि रयाल नु तव कुरु व रोग थाकैः॥
शेहा कु तौत्त व कुल रयार नुः तव वोर भस्म करनुः सो
भस्म। कुरुवा तिल सित शरीर मे मर्दन गर्नुः तव शरीर को लूतो
थाकैः॥ सिधा। करवी तिल सित पिढ्नि शरीर मे मर्दन गर्नुः तव
अंग को घा इरा थाकैः॥ हरदो। फि। सिवारि र सचारे [illegible]

सन्तानवनास्यद्दिनु तव अथ पक्ष्माल थाकैः॥ ॥ इति चरीपा
रश्वन्तिकारः॥ ॥ अहरितकि॥ गोवरपाकाई कृनालुवागफु॥
लाइ॥ ऐ त्निस्यकरि पिसना॥ गुड सितलबानुः॥ वर सातोपाः
त्रिपिनुः तव वालरवकोकाल वसैः॥ ॥ सुवांग॥ अ्राग्गजलाइ
कौडोजलाइ सुवांग॥ हिंग॥ ऐ त्निस्यकरिपिसनातवगोर
कामहीस्सित पिंनदिनु तव वालाकी लहनिवसैः॥ ॥ हिं
गजवानु॥ हरितकिः सुकागगड॥ ऐ त्निस्यकरिपिसनातव
पानिघारि॥ भरकरदुमालि॥ पानुः जातकपितदिनु तव चेरकी
लहनिवसैः॥ ॥ इति पेटकी लनुत्तिकारः॥ ॥ जवुपारभा

गामलिव भागरापिपलाउ दारिम काविनाउ ऐ त्निरे कचक
रिपिसना॥ गुड सितवाता दिनुः तव वालाधकारो थाकैः अवि
दकोलहनि थाकैः॥ किंलघसे ज्ञुन्नत वैगाः॥ घुरकिलावि
नोथोकिकरतुर॥ अथ वासाहडाकिलिढः अथ वाकपुराको
डुदस्अ थवा तिलतवगारदुधहगावनु तव विकोकर्रपिस
नुः तव जातकतलुवाव तावनुः ताल तव लावनातववाला
धकालो थाकैः॥ घुरकिंडाउगोरोवन॥ माछ्रोकापिन्तः रव
नाऐ त्निपिद्दि वालाप्रानदिनु तव वालाधकारो थाकैः॥
इतिवालाधकारोप्रतिकारः॥ ॥ अथ थाकोचरी॥ गुड॥ त

पारिनास दिनुः तव वादलि थाकैं॥ महत्सो वरो। विविराको
रसघारि पिसनु तव नास दिनु तव वादलि थाकैं॥ तुजुरको
पोव पारि नास दिनु तव वादलि थाकैं॥ घृत। विनाको वीज श्र्वपि
वालिकि दलागरि धुवार पिनु तव वादलि थाकैं॥ ॥ रतिवाः
दलिप्रतिकारः॥ ॥ केतुराको भस्म। त्रिफला। ऐति पिप्लि वत्र
गरितगर्नु। घृत सित भगमे लेप गर्नुः तव भगको रोग थाकैं॥
श्रृंजेपाल। तिलो। तुथो। जिरो। छैरः। सिंधो। जवानु। उडं तिफटिग्री
ऐति श्रूकलि पिसना ऐक ति वुफल र सनु परना तवघान

दिनु तव जलंडर रोग थाकैं॥ जसकन श्र्वजीर्ती होइः पेत
दाउहि रहे तु मोउ चोनह वैः त्यो विघन श्र्वनानि भनुः ताती
पानि सित कृननु मालि पिनु दिनु तव पेटको निरंध थाकैं॥
श्यौकको जरो पिन दिनु तव पेटको निरंध थाकैं॥ ॥ रातद
दको निरंधप्रतिकारः॥ ॥ हरिनको सिंग सहस्त्र मेढुराः
षनि वोशि। ऐति वासि पानि सो दनु तव पिनादिनुः तव शरी
रकि वचकारि थाकैं॥ ॥ षैरको वोकरो को दुसला को छाला
वासकको वोकराः सिमलको फुला ऐति चूर्ण कारि महसिं
सित खान दिनु तव बुघल दो थाकैं॥ जामुनाको बोकरा श्री

पकावोकरा १ इति पिंढि वांसिपानि सित खानदिनु तव उषर
दो थाकैछ॥ व्वाकारि थाकैछ॥ ॥इति व्वाकारिप्रतिकारः॥ १०॥
सुतिस भाग १ अरिडकाजरा भा १ घोडकुमारिकिगुदि भाग १ बजो
भा १ सिंधो भा १ लोहिनुसाका जरा १ इति पिंढि वाक्काकाढु उसि
लेपगर्नु: तव पिनास रोग थाकैछ॥ भल्लाया भाग १ अजेपाल १ सुंठो १॥
तिम १ राजवृक्ष किगुदि १ इति पिंढि भैसा नौनि सित लेपगर्नु: तव
पिनास रोग थाकैछ॥ ॥इति पिनास रोग प्रतिकारः॥ ॥हिंग भाग १॥
जवानु १ सुंठो १ सौवर्चलो १ जिरो १ जवाखार १ इति मिलाइ पिसना
तव जवका माड सित खान दिनु तव हिक्का वहु थाकैछ। कासो वहुथा

पेटकि वहु थाकै। नाभिदि किवहु थाकैछ॥ ॥इति हिंगाष्टक चूर्ण
वहुं प्रतिकारः॥ ॥हिंगकुलाथो भाग १ सिंधो १ सुंठो १ मरिच
१ पिपला १ जवानु १ जिरो १ इति दोबधि पिसना: पहिलि ग्रास घृत
५ सित विरालापाउ: घ्रमान खान दिनु तव भोग लागे पेट शूर थाकैछ॥
वायु सर्वशूर थाकैछ॥ ॥इति हिंगाष्टक वहु शूर प्रतिकारः॥ ॥वाहल्या
× ल्याको चूर्न घाम घाल नु तव घाउ थाकैछ॥ घिउकुमारको जरो। हरडो
वा सिपानि सित पिस नु तव पिनदिनु अक्षिको धुनि लो थाकैछ॥ ॥
अवकाकोरला उदघोटपिनदिनु: नडायो। महः। ष यो नेलागो। विष
नलागो॥ ॥पिपला। कान्तिको मह सित खानु तव जर रोग थाकैछ॥

रतिजलरोगप्रतिकारः॥ ॥ घरैर कि छाला, चुयात्रा का कु
लः चुलिमार महासितमानु तव मुखवाटको आवृ दोरन्न
थाकै॥ । ॥ हरे दो, गु छो, विपला, हरितकि रैतिस्म कार वि
सनात व वस्त्र गरितकनीत वगाई को मह सित बलकनीत
वलेपला वना सर्वव्रतिला थाकैछ॥ ॥ इति घारलो प्रतिकार॥
राजिग्रहत लस्मा वना: तब पिढ्ढि डुधि सितबानु तव घारा ध
मौ॥ घाउ: मह: रक्त बतुनरै तिपिढि चौला निसित घानुत व सं
ग्रहनि थाकैन्न रक्त अतिसार थाकै: हरला बेग थाकै॥ अक्षु
घ वारे सि वालि वुरी मह सितघान दनुतव का बो कि औ
मैरको

कल्ला
तिपुरक्ति कोर गुगल लाइ अथवा घनासितघानु अथवा
उदसित घानु॥ ॥ भैसगुगुल, वजो, हिंग, केस्तुरि, घोराको
मासु, सो वला, सुवरको वसो: लसुन: श्वानकि विष्ठ रैतिस्म
केलि पिसनो तव वरिवाध नारै करवरि धूप करना, बोकलि
छादै डाकिनि, भूत, प्रेत छाडै कुलके डाकिया छादै मर
मशान छाडै राकैस डैत्या न लागै, कुंकुरा धुगार कलो: घल
धुगार कतु सर्वदोष छाडै॥ ॥ इति मलचु वयुदिको॥ ० ॥
विषनाग, विषलि, हिरवी, लवांग, जाइफल भाग, अ

लैचि जाइफ… ज्वाइन चिनो भाग २ ले त्नि सबै र चुर्ण कर्नु
न ब वस्त्र गारन कर्नु: र सर… तिइ इर षानु सर्व वायु ह
रै सर्व रोग निवारयेत्॥ ॥इति मैलवरसनाम:॥ ॥श्री
रह को जरो वस्‌ को जरो विह्नोंक दाइ माल को न्नो गु
गौ न गुषो पुर्न वा १ सुठो १ इति स्मकुलि ३ मालिका पक
र नुल वपिनदिनु वा द ज्वर था कैश॥ कै र वा: न गुषो सु ठो
कटुकि: चिराय तो व त ध निउ २ इति वो षध रमालिवि
नदिनु नव पित्तज्वर था कैः॥ तवोरसु वां कसाइ लो पि-
रडो र लक फ ज्वर को पथ्य॥ ॥अथ विशु

विडु उपचार: वेल को गुदु: गुर्जो ३ मालि क्वाथ कर नु गा
नवमह सितषानदिनु नवसि वालि विसा षा कैश॥ मेउष
तथा कै॥ लायाकासा नु: मह: षाउ २ ति पिप्लि मूल का दा:
नि सितषान दिनु नव सि लि विसा था कैश॥ र ग्र लैचि लवां
गला या कासान्नु: कांगुना कासां नु: श्री षंड: पिपला: २ इति वो ष
ध छुर्ण गर्नु: मह सित षान दिनु: नवसि मालि विसा था कैः
लवांग जाइफल सुषो वालि लवांग वासियानि सित पिन
दिनु नवसि वालि विसा था कै ४॥ सिमल को वोक्रो या नि सि
तापिनदिनु सियालि था कै ५॥ कलाइ कालानु घ्यत मे…

बडा। देखि वा निलिया लि पिनुः नवउ बलदा थाकैः।।१६।।
बेर को बोक्रो।। त्ति मल को बोक्रो। ३ त्ति चूर्ण कु त्ति मह ल्सितः
खानु नवउ बल दो थाकैः।।१७।। हरडा को चूर्ण मह घाउः त्ति
त खान दिनु नवउ बल दो थाकैः।।१८।। जामुना का बोक्रो आ
वका बोक्रो। ३ त्ति पिढि वा सिपा नि सित खिन दिनुः नवउ
बल दो थाकैः।। माथी भा।। १ लवांग १ जाइफल १ अलैचि १
३ त्ति स्मकल्ति चूर्ण करनु घाउ त्ति त खान दिनु नव सिपार
थाकैः।।१९।। हरेको १ गिरो १ धाइरा को फुल १ आफुग घाउ १ ३ त्ति
स्मकल्ति चौरा निस्सित खान दिनु नवसि पार खिसा थाकैः
।।२०।। असोज का त्ति को वैसाख जेठ। यति मास मद्य दाबु का

नि धनु सिप लिति स्मा था कैः।।२१।। बेर कु [illegible] ल को [illegible]
दो लिवांग। मह [illegible] खान दि नवउ [illegible] थाकैः।।२२।। हिंगुल
मा [illegible] त्ति [illegible] गुठि [illegible] गाविड [illegible] घिरा [illegible] ला
३ त्ति रं [illegible] विकार पिढु [illegible] नव [illegible] गा त्ति कहु आनि मह पाली
पिनुः धुला मानि रवे- [illegible] खानु बाला जानकत लि [illegible]
नवउ [illegible] थाकैः।। [illegible] पान था [illegible] पेट [illegible] बाको [illegible]
ओ चालु कोर सः सीलं गाय [illegible] कोर लः ३ त्ति [illegible] खिन दि
नु नवउ घल [illegible] हरि [illegible] त्ति [illegible] को विनाइ था का
[illegible] विना [illegible] ३ त्ति [illegible] कहु।। तवरा [illegible] घा [illegible]